



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1941 (श10)

(सं० पटना 1242) पटना, सोमवार, 11 नवम्बर 2019

सं० 27/आरोप-01-64/2019-सा०प्रा०-14279
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

18 अक्टूबर 2019

श्री पंकज कुमार गुप्ता, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 1111/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह-अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी के विरुद्ध आँगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता बरते जाने, प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने, कार्य के प्रति लापरवाही, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों से आच्छादित आरोप पत्र समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5851 दिनांक 12.10.2018 से प्राप्त हुआ।

2. समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक 3117 दिनांक 07.03.2019 द्वारा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विन्दुवार मंतव्य की मांग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-1769 दिनांक-19.03.2019 द्वारा निदेशक, आई०सी०डी०एस०, निदेशालय के पत्रांक 1499 दिनांक 11.03.2019 को संलग्न करते हुए निदेशालय के मंतव्य के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

3. बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बसहा के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 75, मदनटोल नवटोली में चयनित सेविका बबीता कुमार, पति शत्रुघन दास, ग्राम मदनडोभ, प्रखंड बाबूबरही को जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 682 दिनांक 29.06.2007 द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर चयनित होने के परिप्रेक्ष्य में इन्हें तत्कालीन प्रभाव से चयन मुक्त कर इन पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया था। मधुबनी जिला में पदस्थापन अवधि (04.08.2015 से 17.06.2017 तक) में वे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के प्रभार में रहे हैं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी के पदस्थापन के बाद उन्होंने इस मामले का गहन अनुश्रवण नहीं किया, जिस कारण सेविका पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी जा सकी, जो सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं सरकारी आदेश का उल्लंघन है। माननीय लोकायुक्त के संज्ञान में आने के उपरांत उनके निदेश के आलोक में श्री गुप्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा पत्रांक 1097 दिनांक 08.12.2016 से श्रीमती बबीता कुमारी पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाबूबरही को पत्र दिया गया और इस पत्र के अनुपालन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पत्रांक 450 दिनांक 09.12.2016 द्वारा थाना प्रभारी बाबूबरही को पत्र दिया गया, जिसका काण्ड संख्या 198/2016 है।

4. श्री गुप्ता के द्वारा पदस्थापन काल में कार्य का अनुश्रवण नहीं किया गया। सेविका के विरुद्ध उच्चाधिकारियों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के प्राप्त आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होता है।

5. अतः श्री पंकज कुमार गुप्ता, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1111/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी—सह—अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया के विरुद्ध आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। साथ ही विचाराधीन मामले में गठित आरोप के लिये श्री गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

6. श्री गुप्ता के विरुद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

7. यह मामला लोकायुक्त कार्यालय (5/लोक (कल्याण) 150/2009 से आच्छादित है। जिसमें चार माह के अंदर विभागीय कार्यवाही के निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है।

8. श्री गुप्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1242-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>